

# एसजी, योनेक्स का नकली सामान बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

Publish Date: Sun, 12 Jan 2020 09:00 AM (IST)



एसजी और योनेक्स का नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। गुरुग्राम की टीम ने टीपीनगर पुलिस के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर करीब तीन लाख रुपये का माल बरामद किया

मेरठ, जेएनएन। एसजी और योनेक्स का नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। गुरुग्राम की टीम ने टीपीनगर पुलिस के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर करीब तीन लाख रुपये का माल बरामद किया है।

ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लि. कंपनी गुरुग्राम के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि नकली माल बिक्री की सूचना पर दो माह से टीम रेकी कर रही थी। घंटाघर के पास फैक्ट्री में नकली माल बन रहा था। शनिवार को टीम ने टीपीनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स स्थित जेडी इंटरप्राइजेज के ऑफिस में छापा मारकर पूर्वा फय्याज अली निवासी जुनैद को पकड़ लिया।

उसकी निशानदेही पर टीम घंटाघर स्थित फैक्ट्री पहुंची। यहां क्रिकेट ग्लब्स, पैड और बैडमिंटन रैकेट बनाए जा रहे थे। इन पर एसजी और योनेक्स के स्टीकर चिपकाकर सप्लाई किया जाता था।

ऑनलाइन भी कर रहा सप्लाई

धीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित ने जस्ट डायल पर भी प्रोफाइल बनाकर सामान का डिस्प्ले किया हुआ है। ऑनलाइन सप्लाई भी की जा रही थी। अकाउंट की जांच में पता चला कि जुनैद अमेजॉन पर भी सामान बेचता था। करीब तीन माह पहले ही उसने अपना अकाउंट बंद किया है।

कोलकाता, विशाखापट्टनम तक पहुंच रहा माल: छापामारी के दौरान जुनैद की बिल बुक भी टीम के हाथ लग गई। इससे पता चला कि माल कोलकाता, हैदराबाद और विशाखापट्टनम तक सप्लाई किया जा रहा था। कोलकाता में सबसे अधिक नकली माल सप्लाई हो रहा था। धीरेंद्र ने बताया कि जल्द ही एक टीम कोलकाता के मार्केट में भी रेड करेगी।

कार्रवाई के बाद बदला धंधे का तरीका:

धीरेंद्र ने बताया कि मेरठ में कई रेड होने के बाद नकली माल बनाने वालों ने काम करने का तरीका बदल दिया है। पहले फैक्ट्री और गोदामों में काफी माल रहता था, लेकिन अब माल सिर्फ ऑर्डर पर ही तैयार किया जाता है। दिन में सप्लाई नहीं होती।

**Source:** <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-sg-yonex-factory-caught-making-fake-goods-19928668.html>